



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092024-257256  
CG-DL-E-19092024-257256

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3677]  
No. 3677]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2024/भाद्र 28, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2024/BHADRA 28, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2024

का.आ. 4016(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 (2024 का 15) की धारा 88 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अक्टूबर 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम 2024 प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 103 / 2024, फा. सं. 370142/17/2024-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, टीपीएल -IV

MINISTRY OF FINANCE  
(Department Of Revenue)  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2024

S.O. 4016(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 88 of the Finance (No. 2) Act, 2024 (15 of 2024), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of October, 2024 as the date on which the Direct Tax *Vivad Se Vishwas* Scheme, 2024 shall come into force.

[Notification No. 103 / 2024, F.No.370142/17/2024-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., TPL-IV

6016 GI/2024